

ॐ

~~~~~

विद्या भवन,बालिका विद्यापीठ,लखीसराय ।

कक्षा-नवम् विषय-पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ

दिनांक—11/09/2020

~~~~~

卐 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया 卐

मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात!

आपका हर दिन खुशियों से भरा हो!

एन सी इ आर टी पर आधारित

प्यारे बच्चों !आज की पाठ्य सहगामी अभिक्रिया में हम लोग 11 सितंबर के इतिहास को जानेंगे।

- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में 11 सितंबर, 1996 को पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी।

- अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे।
- प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर, 1896 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुआ था।

इनका होता है जन्मदिन:

- * अमेरिकी लघु कथाकार **ओ. हेनरी** का जन्म 11 सितंबर, 1862 को हुआ था।
- * अहिंसा और मानव अधिकारों के भारतीय वकील **विनोबा भावे** का जन्म 11 सितंबर, 1895 को हुआ था।
- * मराठी कवि और साहित्यकार **आत्माराम रावजी देशपांडे** का जन्म 11 सितंबर, 1901 को हुआ था।
- * टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज **लाला अमरनाथ** का जन्म 11 सितंबर, 1911 में हुआ।
- * राजस्थानी और हिंदी कवि **कन्हैयालाल सेठिया** का जन्म 11 सितंबर, 1919 को हुआ था।

इनकी होती है पुण्यतिथि :

* लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, एक समाज सुधारक **सुब्रह्मण्य भारती** का निधन 11 सितंबर, 1921 को हुआ था।

* एक वकील, राजनेता और पाकिस्तान के संस्थापक या पाकिस्तान के डोमिनियन **मोहम्मद अली जिन्ना** का निधन 11 सितंबर, 1948 को हुआ था।

* सबसे प्रमुख हिंदी कवियों में से एक निबंधकार, साहित्यिक और राजनीतिक आलोचक और कथा लेखक **मुक्तिबोध गजानन माधव** का निधन 11 सितंबर, 1964 को हुआ था।

धन्यवाद

कुमारी पिकी "कुसुम"

